

E:KRBL/BIBHU/STK_EX_2021/37
03 September 2020



✓	The General Manager Department of Corporate Services BSE Limited Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001	National Stock Exchange of India Limited “Exchange Plaza”, C-1, Block-G Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051
	Scrip Code: 530813	Symbol: KRBL Series: Eq.

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Notice published in Newspaper with respect to 27th Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (“VC/OAVM”) facility

Pursuant to the provisions of Regulation 30 and 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), we are pleased to enclose herewith the copies of the newspaper advertisements published in the columns of English Daily “Financial Express” and Hindi Daily “Jansatta” published on 02 September 2020 intimating that 27th Annual General Meeting will be held on Wednesday, 30 September 2020 VC/OAVM facility

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For KRBL Limited


Raman Sapra
Company Secretary

Encl.: As Above.

Corporate Office : C-32, 5th & 6th Floor, Sector-62, Noida-201301, Gautambudh Nagar, (U.P.), INDIA.
Regd. Office : 5190, Lahori Gate, Delhi - 110 006, INDIA. Tel. : +91-11-23968328, Fax : +91-11-23968327, CIN No. L01111DL1993PLC052845
Tel. : +91-120-4060300, Fax : +91-120-4060398. E-mail : mails@krblindia.com. Visit us at : www.krbllrice.com

WORLD'S LARGEST RICE MILLERS & BASMATI RICE EXPORTERS

E:KRBL/BIBHU/STK_EX_2021/37
03 September 2020



The General Manager Department of Corporate Services BSE Limited Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001	✓	National Stock Exchange of India Limited “Exchange Plaza”, C-1, Block-G Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051
Scrip Code: 530813		Symbol: KRBL Series: Eq.

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Notice published in Newspaper with respect to 27th Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (“VC/OAVM”) facility

Pursuant to the provisions of Regulation 30 and 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), we are pleased to enclose herewith the copies of the newspaper advertisements published in the columns of English Daily “Financial Express” and Hindi Daily “Jansatta” published on 02 September 2020 intimating that 27th Annual General Meeting will be held on Wednesday, 30 September 2020 VC/OAVM facility

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For KRBL Limited

Raman Sapra
Company Secretary

Encl.: As Above.

पाठ्य पत्रों के माध्यम से
पदार्थों से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।



CIN: L01111DL1993PLC052845

पंजी. कार्या.: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली - 110006

फोन: 011-23968328, फैक्स: 011-23968327

ईमेल: investor@krblindia.com; वेबसाइट: www.krblrice.com

27वीं वार्षिक साधारण बैठक के सदस्यों को सूचना

प्रिय सदस्य(ए)

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में सामूहिक स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना केआरबीएल लिमिटेड के सदस्यों की 27वीं (सत्ताइस्वीं) वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- 27वीं एजीएम की सूचना और वर्ष 2019-20 के लिए केआरबीएल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुपालन में सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भागीदारी या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यगणों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com तथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
- भौतिक प्रारूप में शेर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, वे एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और/या ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल्स निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति ई-मेल investor@krblindia.com या rta@alankit.com पर भेजकर प्राप्त कर सकते हैं:
ए. एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र जिसमें आपका नाम, फोन नंबर, पता और पुरा पता हो;
बी. शेर प्रमाण पत्र (सामने और पीछे) की स्कैन की हुई कॉपी;
सी. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी; तथा
डी. कंपनी के साथ पंजीकरण के रूप में सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ज़ाइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति।
- डिजिट फॉर्म में शेर रखने वाले सदस्य, अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता भी अपडेट करें।
- एजीएम के उद्देश्य से 23 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक सदस्यों का रजिस्टर और शेर ट्रांसफर बुक्स बंद रहेंगे। उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों के हित एवं जानकारी के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

**बोर्ड के आदेशानुसार
कृते केआरबीएल लिमिटेड**

हस्ता/-

रमन सारा

कंपनी सचिव

स्थान: नोएडा

दिनांक: 01 सितंबर 2020

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आंध्र प्रदेश, बंगलूर, भारत। पंजीकृत कार्यालय: आंध्र प्रदेश, बंगलूर, भारत।
सी.ई.डी. 110022 फोन: 86074607, फैक्स: 26173863, ईमेल: investor@indraprasthgas.com
वेबसाइट: www.indraprasthgas.com, www.indraprasthgas.com, L23201DL1998PLC097614

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी का ध्यान रखते हुए, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8.4.2020, सं. 17/2020 दिनांकित 13.04.2020 एवं सं. 20/2020 दिनांकित 05.05.2020 ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदाधीन अधिसूचित नियमावली और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल मीडिया ("ओएवीएम") के माध्यम से किया जाएगा।

ES LIMITED

March 30, 2011 issued by the Registrar of Companies, Karnataka a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies following the general meeting of the Shareholders of our Company held on May 13, 2020. For more information regarding changes in the name and

Karnataka, India

E-mail: investors@happiestminds.com;

FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,100.0 MILLION BY AND UP TO 27,249,362 EQUITY SHARES BY CMDB II (THE 35,663,585 EQUITY SHARES ("OFFERED SHARES") AND THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR

Non-Resident Investors Portion: Not more than 15%

Equity Shares.
thereafter.

ASBA (ASBA) is a better way of applying to issues by simply further details, check section on ASBA below.

Registered Brokers, DPs and RTAs.
ASBA Bank (SCSBs) or to use the internet.

is linked to their PAN.

the ASBA and UPI process, please refer to the details given in the prospectus. For more details, please refer to the details given in the prospectus. For more details, please refer to the details given in the prospectus.

of which 5 closed below the issue price on offer price at the upper end of the price band compared to the average industry peer group

7, 2020
SEP 9, 2020

Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the

Company as regards its objects: For information on the main and Certain Corporate Matters" on page 173 of the RHP. For further details, please refer to the prospectus. For further details, please refer to the prospectus.

The authorised, issued, subscribed and paid up share capital of the Company is ₹ 589 million and 200,000 Preference Shares of face value ₹ 652 each. The Company is ₹ 280.5 million divided into 140,237,050 Equity Shares of face value ₹ 2.00 each.

of the Company and the number of Equity Shares held by the Shareholders of our Company are SR Gopalan and S. Ramesh Babu respectively of face value of ₹ 10 per equity share as initial information is proposed to be listed on the Stock Exchanges, and NSE for listing of the Equity Shares pursuant to their letters of allotment. NSE is the Designated Stock Exchange. A